



SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com
CIN: L52110DL1985PLC019893, Website-www.shivkamalimpex.com

Ref. No.: SKIL/2020-21/257

To,
Listing Operations
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

Date: 15-Sept-20

Scrip Code: 539683

Subject: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of the Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020 published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on September 15, 2020.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **Shivkamal Impex Limited**

Manu Jain
(Director)



Encl: As above

KONARK COMMERCIAL LIMITED
CIN : L51109AS1985PLC02916
Regd. Office : B. R. Chandak Market, Marwar Pally, Ward No. 6, Guwahati, Jorhat, AS-785001
Email : info.konarkcommerciallimited@gmail.com, Website : www.konarkcommercial.com

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020

S. No.	Particulars	₹ (in lakhs)		
		Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total income from operations (net)	-	6.30	31.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.18)	0.60	1.68
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.18)	0.60	1.68
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.18)	0.60	1.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3.18)	0.60	1.25
6	Equity Share Capital	50.00	50.00	50.00
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not annualised)	(0.64)	0.12	0.25
	Basic	(0.64)	0.12	0.25
	Diluted	(0.64)	0.12	0.25

NOTES:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.mseil.in and www.konarkcommercial.com respectively.
For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Vishal Kumar Sharma
DIN: 07310503
Date : 14.09.2020
Place : Kolkata
Whole-Time Director

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

REGIONAL STRESSED ASSET RECOVERY BRANCH
75/1, MANGAL PANDEY NAGAR, MEERUT

NOTICE

1. M/s Shri Ganesh Industries, Reg. Address: Opposite SBI Main Road, Kithore, Meerut
Address: Khasra No. 794 Khata No.463, Village Nanglamal, Meerut
2. Mr. Abhishek Bansal S/o Mr. Rakesh Kumar Bansal (Borrower), Address: House No. 208/2 Phase II, Somdutt Vihar, Meerut-250004
3. Mr. Rakesh Kumar Bansal S/o Late Jagannath Prasad (Guarantor) Address: House No. 208/2 Phase II, Somdutt Vihar, Meerut

Dear Sir,
Re: Notice to collect personal belongings from Bank's secured asset at Khasra No. 794 MI, Khata No.463, Village Nanglamal, Meerut
In the captioned matter please take reference of Physical Possession dated 15-01-2020 Under Sarfaesi Act 2002 of entire Plant & Machinery alongwith mortgaged property situated at Khasra No. 794 MI, Khata No. 463, Village Nanglamal, Meerut which was witnessed by Mr. Rakesh Kumar Bansal S/o Late Jagannath Prasad (Guarantor of M/s Shri Ganesh Industries).
On the same day we had requested Mr. Rakesh Kumar Bansal to inform the proprietor of the firm M/s Shri Ganesh Industries, to collect all his personal belongings from the secured asset but same is still lying at the factory premises. Again a notice in the subject matter dated 04.09.2020 was also sent to the Borrower/ Guarantor through Registered Post but personal belongings at the security mortgage to the bank were not removed by the Borrower / Guarantor. Borrower / Guarantor are hereby advised to contact the undersigned within 7 days of Publication of this Notice and collect their personal belongings from the secured asset of Bank as detailed above, at the time and date as intimated by the undersigned to Borrower/ Guarantor.
Please note that in case Borrower/ Guarantor fail to remove their personal belongings from the secured site, the same will be auctioned off through inviting bids. Also treat this as Final Notice from Bank.
Date: 14.09.2020
Place : Garh Road, Meerut
Authorised Officer,
Ph. 9105917184, 6399690790

MACRO International Ltd.
Regd. Office : 24/147, Plaza Kalpana, Ground Floor, Birhana Road, Kanpur - 208 001
Tel. : (0141) 2373364, 2373164, E-mail : miel1@rediffmail.com
Website: www.miel.co.in CIN : L74120UP1993PLC15605

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020
(Rs. In Lacs excluding Earning per Share)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Income from Operations	5.07	(2.67)	7.85	20.48
2	Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	1.20	(4.09)	0.57	(2.81)
3	Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1.20	(4.09)	0.57	(2.81)
4	Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	0.77	(3.67)	0.42	(2.82)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	0.77	(3.67)	0.42	(2.82)
6	Paid up equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	398.96	398.96	398.96	398.96
7	Basic and diluted EPS (Not Annualized) (Rs.)				
	Basic	0.02	(0.09)	0.01	(0.07)
	Diluted	0.02	(0.09)	0.01	(0.07)

Notes :
(i) The above results have been reviewed and recommended for the adoption by the Audit Committee to the Board of Directors and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th September, 2020.
(ii) The above is an extract of the detailed format of Quarterly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.miel.co.in)

By order of the Board
For **MACRO INTERNATIONAL LIMITED**
(SUDHIR KUMAR PARASRAMPURIA)
Managing Director
DIN: 00358982

Place : Jaipur
Date : 14.09.2020

MPDL LIMITED
(formerly Monnet Project Developers Limited)
Regd. Office : Plot No. 216, Sector - C, Urla Industrial Complex, Raipur (Chhattisgarh)-493221
Tel. No. 011-29218542-46; Fax : 011-29218541; e-mail : isc_mpd@monnetgroup.com
website: www.monnetgroup.com; CIN : L7102CT2002PLC015040

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2020
(Rs. in Lakh except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended 30.06.2020	Quarter Ended 31.03.2020	Quarter Ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020	Quarter Ended 30.06.2020	Quarter Ended 31.03.2020	Quarter Ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	13.35	105.13	-	566.27	13.35	105.13	-	566.27
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	65.05	(189.89)	(58.68)	(230.06)	65.05	(189.89)	(23.58)	(230.06)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	65.05	(189.89)	(58.68)	(230.06)	65.05	(189.89)	(23.58)	(230.06)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	65.05	(189.89)	(58.68)	(230.06)	44.19	(43.92)	(19.61)	(190.48)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	65.05	(189.89)	(58.68)	(230.06)	44.19	(43.92)	(19.61)	(190.48)
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	4619.29	-	-	-	4787.94
7	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- per each)	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	(a) Basic	0.88	(2.56)	(0.79)	(3.10)	0.60	(0.59)	(0.26)	(2.57)
	(b) Diluted	0.88	(2.56)	(0.79)	(3.10)	0.60	(0.59)	(0.26)	(2.57)

Notes :-
1) The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th September 2020.
2) The Company has unabsorbed income tax losses hence provision for income tax on income shown in Q1 is not required.
3) The results for the quarter ended 30.06.2020 have been subject to a Limited Review by the auditors.
4) Figures for the quarter ended 31st March 2020 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended 31st March 2020 and the published unaudited year to date figures upto nine months ended 31st December 2019.
5) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com) and Company website www.monnetgroup.com

FOR MPDL LIMITED
(formerly Monnet Project Developers Limited)
(B.D BHARDWAJ)
WHOLE-TIME DIRECTOR
Place: New Delhi
Date: 14.09.2020

DIGJAM LIMITED
(CIN: L17123GJ2015PLC083569)
Registered Office: Aerodrome Road, Jamnagar 361 006 (Gujarat)
e-mail: digjamcosec@gmail.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020
(₹ in lacs, except per share data)

Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019
	Unaudited	Audited	Unaudited
Total Income from Operations	-	81	70
Net (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(277)	(1,758)	(521)
Net (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(277)	(1,758)	(521)
Net (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(277)	(1,758)	(521)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(277)	(1,744)	(511)
Equity Share Capital	8,764	8,764	8,764
Other Equity excluding revaluation reserve	-	(7,609)	-
Earnings per Share (of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations):-			
Basic & Diluted	(0.32)	(2.01)	(0.59)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.digjam.co.in.

Place : Ahmedabad
Date: September 14, 2020
On behalf of the Monitoring Committee

By order of the Board
For **MACRO INTERNATIONAL LIMITED**
(SUDHIR KUMAR PARASRAMPURIA)
Managing Director
DIN: 00358982

Place : Jaipur
Date : 14.09.2020

OMANSH ENTERPRISES LIMITED
CIN: L21011DL1974PLC241646,
Reg. Off.: Shop No. 37, QD Block, DDA Market, Pitampura, New Delhi-110034
Email: info@omanshenterprises.com, Website: www.omanshenterprises.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2020
(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2020	31.03.2020	
		Unaudited	Audited	31.03.2020
I	Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00
II	Other Income	0.45	0.00	0.00
III	Total Revenue	0.45	0.00	0.00
IV	Expenses:			
	(a) Cost of Material Consumed	0.00	0.00	0.00
	(b) Purchases of Stock in Trade	0.00	0.00	0.00
	(c) Changes in Inventories of Finished Goods, Work in Progress, and stock in Trade	0.00	0.00	0.00
	(d) Employee benefit expense	0.00	0.00	0.00
	(e) Finance Cost	0.01	0.00	0.00
	(f) Depreciation	0.00	0.00	0.00
	(g) Other Expenditure	0.00	0.49	0.00
	Total Expenses	0.01	0.49	0.00
V	Profit/Loss before Exceptional Items & Tax	0.44	-0.49	0.00
VI	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00
VII	Profit/Loss before Tax	0.44	-0.49	0.00
VIII	Tax expense	0.00	0.00	0.00
	Income Tax	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	0.00	0.00	0.00
IX	Profit/Loss for the year	0.44	-0.49	0.00
X	Other Comprehensive Income	0.44	-0.49	0.00
XI	Total Comprehensive Income for the period	0.44	-0.49	0.00
XII	Paid-up equity share capital(Face value)	355.00	355.00	355.00
XIII	Reserve Excluding Revaluation Reserve	-	-	-
XIV	Basic/Diluted EPS (After Extraordinary Items) in Rs.	0.01	-0.01	0.00

Notes:
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14.09.2020.
2. The company does not have any exceptional items to report for the above period.
3. The figures of the previous period/year have been regrouped/reclassified, wherever considered necessary
4. This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

On behalf of the Board Of Directors
For Omansh Enterprises Limited
Sd/-
Satvinder Singh
Director
DIN: 08057553
Place: Zirakpur
Date: 14.09.2020

THE BIRLA COTTON SPINNING & WEAVING MILLS LTD.
Corporate Identity Number: L65100DL1920PLC099621
Regd. Office: Hindustan Times House , 9th Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001
Phone: 011-66561206, Email : secretarial.ht@rediffmail.com, Website: www.birlacotton.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020
(₹ in Lakhs, except per share data)

S. No.	Particulars	Three Months ended			Year ended
		30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (Net)	135	118	104	354
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary items) #	(40)	108	88	297
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items) #	(40)	108	88	297
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional and extraordinary items) #	(63)	80	26	453
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit/(-) Loss for the period (after tax) and other comprehensive Income (After tax)) *	(3)	-	(127)	(127)
6	Equity Share Capital	114	114	114	114
7	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations-not annualised)				
	Basic	(5.51)	6.98	2.27	39.56
	Diluted	(5.51)	6.98	2.27	39.56

NOTES:
1. The above unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on September 14, 2020.
2. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the above Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020.
3. The Company has adopted Indian Accounting Standard (Ind-AS) effective 1st April, 2019 and accordingly unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 are in compliance with Ind-AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the companies (Indian-Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).
4. The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as prescribed vide Ind AS 34 "Interim Financial Reporting".
5. i) Investment in shares (other than investment in Associates) have been measured and classified under "Fair Value through Profit & Loss as per option available under Ind-AS and Schedule III (Division-II) to the Companies Act.
ii) Investments in Debt based Mutual Funds (held not for trading) have been measured and classified under "Fair Value through Profit & Loss."
6. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2020 along with review report of the Statutory Auditors is available on our website at www.birlacotton.com and under Financial Results at Corporate section of www.cse-india.com.
7. The figures of the corresponding quarter have been regrouped /reclassified, whenever necessary to confirm to current quarter classification / presentation.
The Company does not have any exceptional and extraordinary items to report in above periods.

For The Birla Cotton Spinning & Weaving Mills Ltd.
Sd/-
(Virender Kumar Charoria)
Director
DIN 00046895
Place : New Delhi
DATE : 14.09.2020

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED
Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com
Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC09893

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020
(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Year Ended		
		30-Jun-20 (Unaudited)	30-Jun-19 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)
1.	Total Income from Operations	8.65	7.22	37.47
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.89	4.50	27.07
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.89	4.50	27.07
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.16	3.33	20.25
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.16	3.33	20.25
6.	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet	-	-	515.54
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter)			
	Basic	Rs. 0.51	Rs. 0.33	Rs. 2.01
	Diluted	Rs. 0.51	Rs. 0.33	Rs. 2.01

Notes
1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.shivkamalimpex.com.
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 14-Sept-20.

By the Order of the Board
For Shivkamal Impex Limited
Sd/-
Manu Jain
(Director)
DIN: 07801467
Place: New Delhi
Date: 14.09.2020

CAPITAL TRUST LIMITED
CIN No.: L65923DL1985PLC195299
Regd & Corp. Office: 507, DLF Courtyard, Saket District Center, New Delhi-110017
Email- cs@capitaltrust.in, Website- www.capital-trust.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020
(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		3 months ended 30.06.2020 Unaudited	Corresponding 3 months ended 30.06.2019 Unaudited	3 months ended 30.06.2020 Unaudited	Corresponding 3 months ended 30.06.2019 Unaudited
1	Revenue from Operations	2,566.81	3,876.97	2,716.73	4,181.12
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	121.58	(1,042.38)	284.23	(1,250.81)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	121.58	(1,042.38)	284.23	(1,250.81)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	91.15	(1,075.53)	212.55	(1,148.26)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	91.15	(1,072.78)	212.55	(1,145.51)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75
7	Earnings per share before/after extra-ordinary items (Rs.10/-each)				
	- Basic and Diluted (Rs.) (not annualised)	0.56	(6.63)	1.31	(7.08)

Notes:
1. The business activity of the Company falls within a single segment viz "financing activities and hence there is no other reportable segment as per Ind AS 108.
2. The Novel Corona virus (COVID-19) pandemic (declared as such by the World Health Organisation on March 11, 2020) has contributed to significant decline and volatility in global and Indian market and significant decrease in economic activity. On March 24, 2020, the Indian government announced lockdown till April 14, 2020, which was further extended till May 31, 2020 through the subsequent announcements, to contain the spread of virus. This has led to significant disruptions and disclosures for individuals and business, impacting Company's regular operations including lending and collection activities. The Company's client base and AUM is from the semi-urban/rural segment, where the impact of COVID-19 has been relatively lower. A large segment of our customers are linked to the local economy & operation in essential services and the government has announced a series of economic relief measures for MSME sector, which is expected to support borrower's repayment capacity. From June 1, 2020 onwards, further relaxation in lock down has been granted across the Country, which has helped the Company employees to contract the borrowers.
"Further, pursuant to Reserve Bank of India circular dated March 31, 2020 and May 23, 2020 allowing lending institution to offer moratorium to borrowers on payment of instalment falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020, the Company gave the option of availing moratorium to all its borrowers from March 1, 2020 for three months. In management's view, providing moratorium to borrower at a large scale based on RBI directives, by itself is considered to result in a significant increase in credit risk for such borrowers. Accordingly, considering the unique impact and widespread impact of COVID-19 pandemic, the company has estimated expected credit loss allowance over and above normal provision amounting to Rs. 64.31 lakhs (previous quarter and year ended Rs. 266.27 lakhs) [in case of consolidated Rs. 64.47 lakhs (previous quarter and year ended Rs. 268.89

अस्पताल ने शव सौपने में की गलती, दो कर्मि निलंबित

परिवार ने लगाया पोस्टमार्टम के दौरान गुर्दा निकालने का आरोप

मुंबई, 14 सितंबर (भाषा)।

मुंबई के नगर निकाय के एक अस्पताल ने 28 वर्षीय युवक का शव गलत परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद मृतक के रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया।

मृतक के परिवार के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के दौरान उसका गुर्दा निकाल लिया गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को बताया कि यह गलती लोकमान्य तिलक महानगरपालिका सर्वसाधारण रूग्णालय में रविवार को हुई। इसके बाद अस्पताल के मुर्दाघर के कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बीएमसी ने पोस्टमार्टम के दौरान गुर्दा निकालने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।' अस्पताल ने सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले अंकुश सर्वाडे (28) के शव को हेमंत दिगंबर के परिवार को सौंप दिया। दिगंबर ने खुदकुशी की थी।

इस अस्पताल को सायन अस्पताल के नाम से

भी जाना जाता है। गलती सामने आने के बाद सर्वाडे के परिवार ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। बीएमसी ने बताया कि सर्वाडे को 28 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एक ऑपरेशन के बाद से उसे जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया था। रविवार सुबह उसकी मौत हो गई।

उसने बताया कि दिगंबर को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। बीएमसी ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम रविवार को किया था और दोनों के शव अस्पताल के मुर्दाघर में रखे हुए थे। सर्वाडे के परिवार को शव लेने के लिए करीब चार बजे बुलाया गया। इस बीच, दिगंबर के परिवार ने सर्वाडे के शव की पहचान दिगंबर के तौर पर की और सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद पुलिस हस्ताक्षर से शव को ले गए।

विज्ञापित में बताया गया है कि गलती का पता तब चला जब सर्वाडे के परिवार के सदस्य उसका शव लेने आए। उस वक़्त तक दिगंबर के परिजनों ने सर्वाडे का अंतिम संस्कार कर दिया था। बीएमसी ने बताया कि बाद में, सर्वाडे के परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया।

पुलिस ने 24 घंटे में अपहृत व्यापारी को मुक्त कराया, छह गिरफ्तार

गिरिडीह, 14 सितंबर (भाषा)।

झारखंड में गिरिडीह जिले की पुलिस ने बिरनी से शनिवार को अपहृत व्यापारी हिमांशु मंडल को 24 घंटे के भीतर रविवार राति चतरा से बरामद कर लिया। पुलिस दिल्ली के दो अपराधियों समेत छह अपहृतों को भी गिरफ्तार किया है।

गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि दिल्ली से आए कुछ अपराधियों ने पुलिस की वदी में 12 सितंबर की शाम पांच लाख रुपए फिरोती की मांग के साथ एक व्यापारी का अपहरण कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चार टीमें गठित कर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हुई और 24 घंटे के भीतर चतरा जिले के मयूरभंज थाना के बलिया जंगल से रविवार शाम अपहृत व्यापारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने चतरा के ग्रामीणों को प्रशंसा करते हुए कहा कि अपहरणकर्ताओं को पकड़वाने में उन्होंने पुलिस की पूरी मदद की। उन्होंने बताया कि रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक अपहरणकर्ताओं के गिरोह के सभी छह सदस्यों को एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया रेणु ने बताया कि गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं की पहचान शशि साव (30 वर्ष), दीपक मंडल (19), संजय पंडा (32), अरविद मंडल (41), सुकर मंडल (35) और विमल मंडल (22वर्ष) के रूप में की गई है।

कम्पनी सूचना

फार्म नं. INC-26

[कम्पनी (इंकांपोरेसन) नियम,

2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, नई दिल्ली सभा एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुभाग (4) तथा कम्पनी (इंकांपोरेसन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मागले में तथा जीआरडी ट्रव्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय - बी. जी.-222, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी. कर्नाल रोड, दक्षिण पूर्व दिल्ली-110042, भारत।

...याधिकारकर्ता एतद्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा 04.09.2020 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत कम्पनी के संगम झणपन में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए इसके पंजीकृत कार्यालय को राजधानी दिल्ली से राजस्थान राज्य में स्थानांतरित करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसके हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होना संभावित हो, वह MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भर कर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को एक साथ पत्र साहित्य अपने हित की प्रकृति तथा विवेक का कारण बताते हुए इस सूचना के प्रकाशन से 14 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक से भेजे जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के निम्नांकित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जावे: पंजीकृत कार्यालय: बी. जी.-222, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी. कर्नाल रोड, दक्षिण पूर्व दिल्ली-110042, भारत।

कृते जीआरडी ट्रव्स प्रा. लि. ह./- (मयंक अग्रवाल) निदेशक

दिनांक : 15.09.2020 दिनांक : 15.09.2020

स्थान : दिल्ली स्थान : दिल्ली

DIN : 01046851

FSL फ्रान्चटाइज सिस्टमिटीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC058837

पंजीकृत कार्यालय: एम-6, II ग तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-22, सेक्टर-4, नोएडा-201301

दूरभाष: +91-120-2534067, 68

फैक्स: +91-120-2534111

26वीं वार्षिक साधारण सभा से संबंधित सूचना यह कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") के संदर्भ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस तथा जनसत्ता में कम्पनी द्वारा जारी पूर्व की सूचना के संदर्भ में है। कम्पनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के चक्रवर्तित रूप मामले के कारण कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.ग.क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा दी गई विस्तार के कारण कम्पनी ने 30 सितंबर, 2020 को आयोजित होने वाली 26वीं एजीएम को स्थगित करने का फैसला किया है। अब, कम्पनी की 26वीं एजीएम आरओसी द्वारा दी गई विस्तारित समयावधि में आयोजित की जाएगी। कम्पनी के अनुसार शेयरधारकों को उम्बुक्त समय पर 26वीं एजीएम को सूचना जारी की जाएगी।

फ्रान्चटाइज सिस्टमिटीज लिमिटेड के लिए तब तक उम्बुक्त और से हस्ता/पुजा गुण

स्थान: नोएडा

दिनांक: 14.09.2020

स्थान: नोएडा

कम्पनी सचिव

दिनांक : 15.09.2020

स्थान : दिल्ली

DIN : 01046851

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016

Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com

Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L51121DL1985PLC019893

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020

(Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		
		30-Jun-20 (Unaudited)	30-Jun-19 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)
1.	Total Income from Operations	8.65	7.22	37.47
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.89	4.50	27.07
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.89	4.50	27.07
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.16	3.33	20.25
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5.16	3.33	20.25
6.	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet			515.54
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized for quarter)			
	Basic	Rs. 0.51	Rs. 0.33	Rs. 2.01
	Diluted	Rs. 0.51	Rs. 0.33	Rs. 2.01

Notes

1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.shivkamalimpex.com.

2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 14-Sept-20.

By the Order of the Board For Shivkamal Impex Limited

Sd/- Manu Jain (Director)

Place: New Delhi Date: 14.09.2020 DIN: 07801467

SUNRISE DISTILLERIES LIMITED

CIN: L15511DL1985PLC021272

Regd. Off: Registered Office: 31/1A, 1st Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009

Ph. No: 011-27132054, Email: sunrisedistillerieslimited@gmail.com

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2020

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Standalone		
	Quarter and three months ended (30/06/2020)	Corresponding 3 months ended (30/06/2019) in the previous year	Year ended on 31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations (net)	-	-	114.65
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.37	0.88	0.33
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.37	0.88	0.33
Net Profit/(Loss) for the period	1.01	0.65	0.25
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	-	-	-
Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10 per share)	49.60	49.60	49.60
Reserves (excluding revaluation reserves as Shown in the Balance Sheet of previous Year)	695.19	693.93	694.17
Earnings per share - (after extraordinary items)- (of Rs. 10/- each)	0.20	0.13	0.05
Diluted earnings per share- (after exceptional items)- (of Rs. 10/- each)	0.20	0.13	0.05

Notes: The above is an extract of the detailed format of the Standalone results for the three months ended on 30th June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the three months ended on 30th June, 2020 are available on the Stock Exchange website www.mse.in

For SUNRISE DISTILLERIES LIMITED

Sd/- Nitesh Kumar (Managing Director)

Place : Delhi Date : 14/09/2020

मांड्या मंदिर के तीन पुजारियों की हत्या के आरोप में पांच लोग गिरफ्तार

बंगलुरु, 14 सितंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मांड्या में मंदिर के तीन पुजारियों की हत्या के मामले में सोमवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मांड्या के पुलिस अधीक्षक परशुराम के ने बताया कि हमने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि चार अन्य फरार हैं। इस मामले में कुल नौ लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से आठ मांड्या और रामनगर जिलों से हैं जबकि एक आंध्र प्रदेश के चित्तूर से था।

मांड्या के एक प्रसिद्ध मंदिर में 10 सितंबर को नौ चोरों ने कथित तौर पर तीन पुजारियों आनंद,

गणेश और प्रकाश की हत्या कर दी और मंदिर से नकदी ले कर फरार हो गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पुजारी ही मंदिर की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग मांड्या जिले के मडुरु तालुक में एक बस स्टैंड पर संधिध तरीके से घूम रहे थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जब पुलिस ने उन्हें घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर तेजधार वाले हथियारों से हमला कर भागने की कोशिश की और एक इस्पेक्टर को घायल कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पुलिस को आत्मरक्षा में गोलीयां चलायी पड़ी जिससे तीन लोगों के पैरों में गोली लग गई।'

दि बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

सीआईएन: L65100DL1920PLC099621

पंजीकृत कार्यालय: हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 9 वीं मंजिल, 18-20, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-66561206, ईमेल : secretarial.h@rediffmail.com, वेबसाइट : www.birlacotton.com

30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्घरण

(₹ लाखों में प्रति अंश आंकड़ों को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष (अंकेशित)
		30.06.2020 (अंकेशित)	30.06.2019 (अंकेशित)	31.03.2020 (अंकेशित)	
1.	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	135	118	104	354
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं असाधारण मदों के पूर्व) #	(40)	108	88	297
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं असाधारण मदों के पश्चात) #	(40)	108	88	297
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं असाधारण मदों के पश्चात) #	(63)	80	26	453
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर पश्चात् कुल व्यापक आय (लाभ/(-) हानि एवं अन्य व्यापक आय शामिल कर के) (कर पश्चात्)*	(3)	-	(127)	(127)
6.	समतल अंश पूंजी	114	114	114	114
(प्रति अंश आय (रुपये 10 प्रत्येक के) जारी व्यवसाय हेतु-गैर वार्षिक)					
	मूलभूत तारल	(5.51)	6.98	2.27	39.56
		(5.51)	6.98	2.27	39.56

टिप्पणियाँ:

1. 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणाम की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 14 सितंबर, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और रिकॉर्ड पर ली गई है।

2. वैधानिक लेखा परीक्षा को 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

3. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक (Ind-AS) को अपनाया है और तदनुसार 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनधिकृत वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत इंडस्ट्रीज-एक्स के अनुपालन में एक साथ पड़े गए हैं। कंपनी (भारतीय-लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ।

4. उपरोक्त वित्तीय परिणाम मान्यता प्राप्त और माप सिद्धांतों के अनुसार इंडस्ट्रीज 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' के रूप में निर्धारित की गई है।

5. i) कंपनी अधिनियम में इंडस्ट्रीज-III और अनुसूची III (शिवीजन-III) के तहत उपलब्ध विकल्पों के अनुसार शेरों में निवेश (एसोसिएट्स में निवेश के अलावा) को 'लाम और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के तहत वर्गीकृत और वर्गीकृत किया गया है।' ii) ऋण आधारित म्युचुअल फंड (ट्रेडिंग के लिए आयोजित नहीं) में निवेश को 'लाम और हानि के माध्यम से उचित मूल्य' के तहत माप और वर्गीकृत किया गया है।

6. ऊपर 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिट किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है, जो सेबी के विनियमन 33 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के पूर्ण स्टॉक एक्सचेंज के तहत दायर किया गया है: 2015 का पूर्ण प्रारूप 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनधिकृत वित्तीय परिणाम, वैधानिक लेखा परीक्षा की समीक्षा रिपोर्ट के साथ www.birlacotton.com पर हमारी वेबसाइट और www.cse-india.com के कॉर्पोरेट अनुभाग में वित्तीय परिणामों के तहत उपलब्ध है।

7. जब भी आवश्यक हो, तदनुसार तिमाही वर्गीकरण/प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए संबंधित तिमाही के आंकड़ों को फिर से इकट्ठा/पुनर्गठित किया गया है।

उपरोक्त अवधियों में रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कोई असाधारण और असाधारण वस्तु नहीं है।

वार्से दि बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.

हस्ता./- विरेन्द्र कुमार बरोडिया

निदेशक

सीआईएन 00046895

SMC CREDITS LIMITED

24, Ashoka Chambers, 5-B, Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060

CIN: L65910DL1992PLC049566, Website: www.smccredits.com

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

(Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2020 Unaudited	31.03.2020 (Audited)	30.06.2019 Unaudited	31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income from operations (net)	87.97	165.56	85.75	638.70
2.	Net Profit for the period before tax, Exceptional and Extra ordinary items	41.56	116.97	20.96	338.61
3.	Net Profit for the period after tax (after extra ordinary items)	33.56	134.63	16.96	319.14
4.	Total comprehensive Income	2148.67	-11884.09	-3774.12	-11317.78
5.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Share Rs. 10/- each)	1002.22	1002.22	1002.22	1002.22
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year				24759.47
7.	Earning per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
	Basic in ₹ per share	0.33	1.34	0.17	3.18
	Diluted in ₹ per share	0.33	1.34	0.17	3.18

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the said quarter and year end are available on the stock exchange www.bseindia.com

2. The Management has assessed the potential impact of COVID-19 on the Company and based on its review there is no significant impact on its financial results and on its financial results and on operations of the company.

3. The above result are review by the audit committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 14th September, 2020

For SMC Credits Limited

Sd/- Prashash Arya

Chairman & Executive Director

Date : 14.09.2020

Place : New Delhi

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN : L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, RAM BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110006

Tel. No.-01123517516-19, Email Id-cs@necgroup.com, Website- www.necgroup.com

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2020

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	3 months Quarter ended (30/06/2020)	Previous Year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2019)
		(un-audited)	(Audited)	(un-audited)
1.	Total Income from Operations	3321.48	37629.94	9678.88
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-323.14	875.55	176.13
3.	"Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)"	-323.14	875.55	176.13
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-323.14	638.95	